



August 24, 2022

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificate viz. Letter of Confirmation in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that the Letter of Confirmation will be issued to the concerned shareholder in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited


(Dhiraj Kapoor)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Hero MotoCorp Ltd.

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi - 110070, India
Tel. +91-11-46044220, Fax +91-11-46044399
HeroMotoCorp.com CIN: L35911DL1984PLC017354 PAN: AAACH0812J



RELIANCE HOME FINANCE LIMITED **DEMAND NOTICE**

Branch Office: 6th Floor, Synergy Tower, A-13/1, Block-A, Sector-62, Noida - 201301
Registered Office: - The Ruby, 11th Floor, North-West Wing, Plot No. 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400028

Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/mortgagors mentioned hereunder had availed the financial assistance from Reliance Home Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/guarantors/mortgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, in the books of RHF in accordance with the directives relating to asset classification issued by the National Housing Bank, consequent to the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers /guarantors /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.

The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice same.

| Name of The Borrower / Address | Co-Borrower And Guarantor Name | NPA Date Date of Demand Notice | Outstanding Amount | Loan Amount | PROPERTY ADDRESS OF SECURED ASSETS |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|
| SHISHIR DUA 28/98 3RD FLOOR WEST, PATEL NAGAR, DELHI-110008 | MONIKA DUA | 16-Aug-22 17-Aug-22 | Rs. 87,28,491/- As on 17th - Aug-22 (against Loan Account No. RHHDEL0000 31028 | Rs. 1,03,00,000/- | All that part and parcel of property bearing Built Up Third Floor, with Terrace Roof Rights, alongwith 22.5% of undivided share of parking in Stilt Area, out of free hold property bearing No. 38/1, constructed on land measuring 200 Sq. Yds. Situated in the abadi of West Patel Nagar, New Delhi-110060 |
| SHIV SHANKAR KUMAR FLAT NO.142, PLOT NO. 08, DWARKA SECTOR 04, SOUTH DELHI APARTMENT, DELHI-110078 | SHIKHA MAURYA | 16-May-22 1-Aug-22 | Rs. 20,62,371/- As on 30th July-22 (against Loan Account No. RHHDEL0000 29614 | Rs. 41,18,378/- | All that part and parcel of property bearing, Flat No-1601, 16th Floor, Tower-F, Having Super Area 1455 Sq. Ft., Mangalya Ophira, Plot No. 16 F, Sector-1, Greater Noida West, Noida, Uttar Pradesh-201308 |

the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/or their guarantors (where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Dated: 24-August-2022 Place: Delhi/ Noida Sd/- (Authorized Officer), Reliance Home Finance Limited.

IndoStar Capital Finance Limited

Registered Office - One World Centre, Tower 2A, 20th Floor, Jupiter Mills Compound, S B Marg, Mumbai - 400013, India
Branch Office - Delhi

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

I, the undersigned as the authorized officer of M/s Indostar Capital Finance LTD, hereby give the following notice to the below mentioned Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor (S) who have grossly failed to discharge their legal liability i.e. defaulted in the repayment of the amount i.e. principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Loan (S) Against Property (S) advanced to them by M/s Indostar Capital Finance LTD and as a consequence there-of, the Loan (S) have become Non-Performing Assets (N.P.A's) of the company. Accordingly, Notice (S) dated -23rd July 2022 were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last Known addresses through India Post on 28th July 2022, however the same have been returned un-served and it is apprehended that the parties mentioned here-in are avoiding the service of the same, as such the Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor (S) named below are hereby intimated by way of this publication notice to clear their entire outstanding dues for the loan facilities availed and also for which securities have been created by them as detailed under:

| Name of the Borrower / Co-Borrower & Address | Description of the Security | Notice Date & Amount(S) Demanded |
|---|--|---|
| (Borrower) 1) M/s. NEEDO ELECTRONICS AND ELECTRICALS PRIVATE LIMITED PLOT NO 250 BLOCK H SECTOR- 1 BAWANA DSIIIC INDUSTRIAL AREA DELHI 110039 (Co-Borrower) 2) Mr. PREM KUMAR, NEEDO ELECTRONICS AND ELECTRICALS PRIVATE LIMITED PLOT NO- 250 BLOCK- H SECTOR- 1 BAWANA INDUSTRIAL AREA DSIIIC DELHI 110039 3) Mrs. POOJAMADAAN PP- 118 MAURYA ENCLAVE PITAMPURA HDFC BANK DELHI 110088 Loan No - LSDEL05118-190003265 | All that - PROPERTY NO. 118 GROUND AND FIRST FLOOR BLOCK- PP PITAMPURA GOPAL MANDIR DELHI - 110034 | Notice Date - 23 rd July 2022 LSDEL05118-190003265 ₹ 3,45,73,330/- as on 21 st July-2022 (Rupees Three Crore Forty-Five Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred Thirty Only) |

This step is being taken for substituted service of the un-served notice (S). The above mentioned Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor (S) are advised to make the payments of amount demanded above along with future interest and other charges accrued there-on, within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Indostar Capital Finance LTD) further steps for taking possession of the Secured Assets/Mortgaged property will be initiated under the provisions of Sec.13 (4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 and Rules there -to. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above-mentioned properties on which Indostar Capital Finance LTD has the first Charge.

Place - Delhi
Date - 23.08.2022

Sd/-
(Supreet Singh)
Authorized Officer

CAPITAL INDIA
Rediscover Business

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577
Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. - 011-49546000

इंडियन बैंक **Indian Bank**
भारत सरकार का उपकरण A Government of India Undertaking

इलाहाबाद ALLAHABAD

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
(Earlier Notice dated 28.03.2022 given Under Section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 has been withdrawn)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice on the dates noted against each account as mentioned hereinafter, calling them to repay given to the under-noted borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described here in below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rules 8 of the said rules on the dated mentioned against each account. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) for the amounts and interest thereon mentioned against each account herein below. The borrower attention is invited to provisions of Sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secure assets.

| Sl. No. | Name of the Account Borrower/ Guarantor/ Mortgagor | Description of Mortgaged property (all the part & parcel of the property consisting of) | DL of Demand Notice Dt. of Possession Notice Amt. outstanding |
|--------------------|--|--|---|
| Branch: Ujjayinwar | | | |
| 1 | Borrower: M/s Narayani Brick Field. Borrower/Mortgagor: Mr. Narendra Kumar Tulsyan S/o Mr. Bhagwati Prasad Tulsyan. Guarantor: Mr. Narendra Kumar Tulsyan All R/o 607, Fl Ganga Sagar Apartment, Ram Tirath Marg, Nam, Lucknow-226001. | All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 504, Fifth Floor, Kunti Apartment, Udayan II, Raksha Khand, Sharda Nagar, Lucknow, Measuring Area: 82.72 Sq.Mtr. Owner: Mr. Narendra Kumar Tulsyan S/o Mr. Bhagwati Prasad Tulsyan (Sale Deed No. 3864 dated 30.03.2017 registered at Bahi No. 01, Zild No. 22112, from Page 177 to 204). Boundaries (as per deed): East: Open to Sky, West: Corridor thereafter Flat No. 503, North: Stair case thereafter Flat No. 501, South: Open to Sky. | 29.09.2021 23.08.2022 ₹ 30,22,797.00 + Interest accrued thereon |

Dated: 24.08.2022, Place: Lucknow Authorized Officer, India Bank (Erstwhile Allahabad Bank)

Hero MotoCorp Limited
Regd. Office : The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354,
Phone No. 011-46044220 | Fax No. 011-46044399
E-mail: secretarialho@heromotocorp.com,
Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs. 2/-) in their favour:

| Folio No. | Shareholders Name | Face Value | Distinctive Nos. | Certificate No.(s) | No. of Shares |
|------------|--|------------|---|---|---------------------------|
| HML0152977 | RAJENDRA NARAYAN DASH SOUMENDRA DASS RAJASREE DASH | Rs.10/- | 1204466-1204515 16065588-16065597 16065598-16065599 33875992-33876041 33876042-33876053 | 24099 208450 208451 384837 384838 | 50 10 2 50 12 |
| | | Rs.2/- | 161540371-161540990 | 521235 | 620 |

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the "Secretarial Department" at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Dhiraj Kapoor
Place : New Delhi
Date : 23.08.2022
Company Secretary & Compliance Officer

MobiKwik

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED)
Regd. Office : Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India.
Tel: +91 (124) 490-3344, CIN : U64201HR2008PLC053766
Website : www.mobikwik.com, Email : cs@mobikwik.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING (BEFORE DISPATCH OF AGM NOTICE & ANNUAL REPORT)

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the members of One MobiKwik Systems Limited ("Company") will be held on **Wednesday, September 28, 2022 at 9:00 A.M. (IST)** through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM), without physical presence of the members at a common venue, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In compliance with the above MCA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participant (DP) /Link Intime India Private Limited. The Notice of AGM will also be available on the Company's website at www.mobikwik.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at <https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp>.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (before the AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by CDSL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The

